

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्रा

## प्राधिकार से प्रकाशित

---

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019—पौष 6, शक 1941

---

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

---

कुछ नहीं.